



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 229) पटना, मंगलवार, 19 अप्रील 2022

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

12 अप्रील 2022

सं० 4/श0क0-16-01/2013-397(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित)” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।—(1) यह नियमावली “बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022” कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-6(1) का प्रतिस्थापन** ।—उक्त नियमावली के नियम 6(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

“(i) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/+2 (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ) उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता/बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

12 अप्रील 2022

सं० 4/श0क0-16-01/2013-398(4)/अधिसूचना सं० 397(4) दिनांक 12 अप्रील 2022 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 क खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

***The 12<sup>th</sup> April 2022***

No.: 4/श0क0-16-01/2013-397(4)--In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is Pleased to make the following Rules to amend the "Bihar O.T. Assistants Cadre Rules, 2014(As amended from time to time)" :-

**1. Short title, extent and commencement.**-(1) These Rules may be called the "Bihar O.T. Assistants Cadre (Amendment) Rules, 2022."

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

**2. Substitution of rule-6(1) of the Bihar O.T. Assistants Cadre Rules, 2014(As amended from time to time).**- **Rule -6(1)** of the said Rules shall be substituted by the following:-

**"6 Qualification:-** (1) For direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in Intermediate/+2(with Physics, Chemistry, Biology and English). In addition to this, it shall be necessary to have passed O.T. Assistants Diploma Course/Bachelor in O.T. Assistant Technology Course from Institution recognized by the Union of India or State of Bihar or any other State Governments and it shall be necessary to have a Certificate related thereto.

**By the order of the Governor of Bihar,**

**(Sd.) Illigible,**

**Secretary of Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 229-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>